



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 718)

पटना, सोमवार, 5 अगस्त 2024

सं० एल/एच०जी०- 14-18/2018- 6452

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

26 जुलाई 2024

श्री मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर के द्वारा विज्ञापन सं०-02/2011 के आलोक में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन एवं अन्य कतिपय मामलों में किये गये अनियमितता के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ में गठित कर साक्ष्य सहित जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-02-1401/सा०, दिनांक-28.07.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17 के अधीन मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर को आरोप के मद्दों की प्रति, अवचार या कदाचार के लांक्षणों का अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की सूची भेजते हुए उनसे लिखित बचाव अभिकथन की मांग विभागीय पत्रांक-9700, दिनांक-25.10.2018 द्वारा की गई। आरोपित द्वारा अपना बचाव अभिकथन उपलब्ध न कराकर अपने कार्यालय के पत्रांक-771, दिनांक-24.11.2018 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु 15 (पंद्रह) दिनों का अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया गया।

3. फलतः श्री मो० शरफुद्दीन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर के विरुद्ध आरोप प्रपत्र ‘क’ पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने हेतु महासमादेष्टा, मुख्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को निदेश दिए जाने का निर्णय लिया गया।

इस बीच दिनांक-30.11.2018 को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11479, दिनांक-21.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के बदले बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही का अंतिम जाँच प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-774, दिनांक-27.07.2022 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसकी छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय

पत्रांक-10154, दिनांक-07.09.2022 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। मो० शरफुद्दीन के द्वारा दिनांक-19.12.2022 को अपना लिखित अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं मो० शरफुद्दीन से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा की गई। सम्यक विचारोपरांत मो० शरफुद्दीन, सेवानिवृत्त जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत प्रमाणित आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिपथ रखते हुए उन्हें अनुमान्य पेंशन के 50 प्रतिशत कटौती संबंधित दंड विनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया।

6. मो० शरफुद्दीन, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर सम्प्रति सेवानिवृत्त के मामले में विनिश्चित दंड के संबंध में विभागीय पत्रांक-13310, दिनांक-14.11.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गई। आयोग के पत्रांक-988, दिनांक-20.06.2024 द्वारा मो० शरफुद्दीन के विरुद्ध विनिश्चित “अनुमान्य पेंशन के 50 प्रतिशत राशि की कटौती करने” संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति संसूचित की गई है।

7. अतएव सम्यक विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-806, दिनांक-16.01.2018 की कंडिका 7(iv) में निहित सुसंगत प्रावधानों के तहत मो० शरफुद्दीन, सेवानिवृत्त जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बक्सर को “अनुमान्य पेंशन के 50 प्रतिशत राशि की कटौती करने” का दंड अधिरोपित किया जाता है।

8. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 718-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>